

आजीविका सृजन हेतु सतत ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण उद्यम पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम



सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) 18 नवंबर 2021 को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और ग्रामीण उद्यमियों के लाभ के लिए सीएसआईआर एकीकृत कौशल पहल के तहत "आजीविकासृजनहेतुसततग्रामीणखाद्यप्रसंस्करणउद्यम" पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।





सीटें: 200 (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर)

पंजीकरण शुल्क: रु.1180/- (जीएसटी सहित)

भुगतान और पंजीकरण की अंतिम तिथि:

12 नवंबर 2021 या 200 आवेदनों तक पहुंचना, जो भी पहले हो

कार्यक्रम की तिथि: 18 नवंबर 2021

आवश्यकताएँ: यह कार्यक्रम राज्य/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम/एनआरएलएम) के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए लक्षित है। हालांकि प्राथमिकता और लक्षित समूह स्वयं सहायता समूह हैं, ग्रामीण उद्यमी भी इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पाठ्यक्रम:

- ❖ 1-2 केस स्टडी के साथ स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली कृषि-वस्तुओं का प्रसंस्करण
- ❖ जैम, जेली एवं केचप प्रसंस्करण
- ❖ विभिन्न प्रकार के पापड़ और चिप्स बनाने के लिए सामग्री और फॉर्म्युलेशन
- ❖ विभिन्न प्रकार के अचारों का प्रसंस्करण एवं उनको बनाना
- ❖ पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग हेतु आवश्यकताएं
- ❖ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की स्वच्छता, पोषण मानक और फसाई (FSSAI) आवश्यकताएं
- ❖ आजीविका के अवसरों को कौशल विकास के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।
- ❖ राज्य सरकार से सहयोग हेतु जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के साथ चर्चा
- ❖ पैनल चर्चा / प्रतिपुष्टि सत्र



कार्यक्रम के बारे में:

दुनिया के 22 प्रतिशत गरीबभारत में रहते हैं। देश में 260 मिलियन से अधिक लोगों के पास बुनियादी जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त आय भी नहीं है, जिन्हें हम गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं। इनमें से 75 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। भारत के गरीब ग्रामीणों में निर्धनता से बाहर आने की प्रबल ईच्छा एवं क्षमता मौजूद है। इस दिशा में इनकी क्षमता को उन्मुक्त करने हेतु गरीबों के सामाजिक संघटन एवं मजबूत संस्थाओं के निर्माण करना बेहद महत्वपूर्ण है। गरीबों के सामाजिक संघटन, संस्था निर्माण एवं सशक्तीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करने हेतु संवेदनशील सहयोग संरचना की आवश्यकता है। इनमें ज्ञान के प्रसार, कौशल निर्माण एवं अन्य आजीविका सम्बन्धी सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाने एवं उन्हें निर्धनता से बाहर निकलने में मदद करने हेतु विशेष जोर देने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) शुरू किया गया है। एनआरएलएम ने लाभकारी स्वरोजगार और कौशल मजदूरी रोजगार के अवसरों को गरीब परिवारों तक पहुंचाकर ग्रामीण निर्धनता को कम करने की परिकल्पना की है, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत आधारभूत संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, गरीब

महिलाओं को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों और सेवाओं के वितरण के लिए गांव, पंचायत, क्लस्टर, ब्लॉक के साथ-साथ जिला स्तर पर स्वयं सहायता समूहों और उच्च स्तरीय सामुदायिक संस्थानों को बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इन सामुदायिक संस्थानों की गतिविधियों में शामिल है वित्तीय एवं आजीविका सहायता सेवाओं को मजबूत करना एवं ग्रामीण आबादी को कौशल प्रदान करना।

इसके अलावा, स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की एक उपयोजना है जिसका लक्ष्य छोटे उद्यमियों, व्यक्तियों एवं समूहों को विभिन्न व्यावसायिक सहायता सेवाओं के साथ-साथ क्रेडिट सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान करना है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थित उद्यमों का एक बड़ा प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत है।

आवेदकों के लिए निर्देश:

1. कृपया भुगतान निर्देशों को पढ़ें और एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से पंजीकरण शुल्क (₹1180/- रुपये जीएसटी सहित) का भुगतान करें। इसके बाद पंजीकरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें। लेन-देन के बाद उत्पन्न ई-रसीद अपलोड करना आवश्यक है।
2. ऑनलाइन भुगतान और पंजीकरण की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2021 है।
3. इस एक दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए लक्षित किया जाएगा। राज्य/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम/एनआरएलएम) के तहत पंजीकृत एसएचजी इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के दौरान एसएचजी पंजीकरण दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है।
4. एक स्वयं सहायता समूह इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अधिकतम पांच सदस्यों को नामित कर सकता है। प्राथमिक आवेदक के पास एक वैध ईमेल खाता और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस कार्यक्रम से संबंधित सभी संचार प्राथमिक आवेदक को भेजे जाएंगे और उन्हें अन्य प्रतिभागियों के साथ समन्वय करना होगा।
5. हालांकि प्राथमिकता और लक्षित समूह स्वयं सहायता समूह हैं, ग्रामीण उद्यमी भी इस कार्यक्रम (व्यक्तिगत पंजीकरण) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
6. ऑनलाइन सत्र: कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सत्रों में भाग लेने के लिए लैपटॉप/डेस्कटॉप कंप्यूटर जिनमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की सुविधा हो और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह कार्यक्रम अंग्रेजी में होगा।
7. आवश्यक दस्तावेजों और भुगतान की पुष्टि के लिए आवेदनों की जांच के बाद ही आवेदकों को 16 नवंबर 2021 तक मीटिंग लिंक, विस्तृत कार्यक्रम और निर्देश प्राप्त होंगे।
8. कार्यक्रम की तिथि और समय: 18 नवंबर 2021 (सुबह 09:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक)।
9. उपस्थिति: पंजीकृत आवेदकों को इस वेबिनार में भाग लेना है। सफलतापूर्वक समापन के लिए कम से कम 90% उपस्थिति होनी चाहिए।
10. कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को ई-प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
11. इस वेबिनार से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आवेदक pmc@cfttri.res.in पर संपर्क कर सकते हैं। इस मेल-आईडी पर भेजे जाने वाले सभी मेल का विषय "SDP:" से शुरू होना चाहिए। संपर्क करने के लिए अन्य किसी माध्यम पर विचार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

भुगतान निर्देश

एसबीआई कलेक्ट एप से लिंक करें

कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

Virtual Training Programme on “SUSTAINABLE RURAL FOOD PROCESSING ENTERPRISES FOR LIVELIHOOD GENERATION”



CSIR-Central Food Technological Research Institute (CFTRI) is organizing an online training programme on “Sustainable Rural Food Processing Enterprises for Livelihood generation” on 18th Nov 2021 under the CSIR Integrated Skill Initiative for the benefit of SHGs and rural entrepreneurs who are interested in food processing.





SEATS: 200 (*first come first served basis*)

REGISTRATION FEE: Rs. 1180/- (including GST)

LAST DATE FOR PAYMENT & REGISTRATION:

12th Nov 2021 OR reaching 200 applications whichever is earlier

DATE & TIME OF THE PROGRAMME:

18th Nov 2021

Requirements: This program is targeted for Self-Help Groups (SHGs) registered under State/National Rural Livelihoods Mission (SRLM / NRLM). Though the priority and the targeted group is SHGs, rural entrepreneurs can also apply for this program (individual registrations)

COURSE

- ❖ Processing of locally grown agri-commodities with 1-2 case studies
 - ❖ Jam, jelly and ketchup processing
 - ❖ Ingredients and formulations for variety papad and chips making
 - ❖ Processing and preparation of variety pickles
 - ❖ Packing, labelling, branding and marketing requirements
 - ❖ Hygiene, nutrition standards & FSSAI requirements
 - ❖ Requisite skills for creating linkages with livelihoods opportunities
 - ❖ Interfacing with DICs for state govt. support
- Panel Discussion / Feedback Session



ABOUT THE PROGRAMME:

India is home to 22 per cent of the world's poor and over 260 million people in the country do not have incomes to access a consumption basket, which defines the poverty line. Of these, 75 per cent were in the rural areas. India's rural poor have a strong desire to come out of poverty and they have innate capabilities. Towards this, social mobilization and building strong institutions of the poor is critical for unleashing the innate capabilities of the poor. Sensitive support structure is required to induce the social mobilization, institution building and empowerment process of the poor. Special emphasis is necessary for facilitating knowledge dissemination, skill building and access to other livelihoods services and help them graduate out of poverty.

In this context, National Rural Livelihoods Mission (NRLM) was launched by the Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India. NRLM envisages to alleviate rural poverty by enabling the poor households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong grassroots institutions of the poor. Under this programme, poor women have been mobilised to form their own institutions like Self Help Groups and higher order

community institutions at village, panchayat, cluster, block as well as district levels to carry out various social activities and delivery of services. Activities of these community institutions include strengthening financial and livelihoods support services and imparting skills to the rural population.

Furthermore, Start-up Village Entrepreneurship Programme (SVEP), the sub-scheme under the DeendayalAntyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) focusses on supporting small entrepreneurs, individual and group through various business support services as well as credit support. A large percentage of the enterprises supported through the various programmes of the MoRD support enterprise in the food processing sector.

INSTRUCTIONS TO THE APPLICANTS:

1. Please go through the payment instructions and make the payment of Registration Fee (Rs. 1,180/- including GST) through SBI Collect. Then fill the online form for registration. E-receipt generated after the transaction needs to be uploaded along with online registration.
2. Last date for online payment and registration is 12th Nov 2021.
3. This one-day skill development program will be targeted for Self-Help Groups (SHGs). SHGs registered under State/National Rural Livelihoods Mission (SRLM / NRLM) can apply for this program. The SHG registration document to be uploaded during registration.
4. One SHG can nominate a maximum of five members to attend this program. The primary applicant should have a valid email account and a mobile number. All the communications related to this program will be sent to the primary applicant and he/she has to coordinate with other participants.
5. Though the priority and the targeted group is SHGs, rural entrepreneurs can also apply for this program (individual registrations).
6. Online Sessions: The program will be conducted through online on **Microsoft Teams**. It is recommended to use a Laptop/Desktop computer installed with Microsoft Teams and a reliable internet connection to attend the sessions. The medium of instructions will be English.
7. After the scrutiny of the applications for necessary documents & payment confirmation, applicants will get the meeting link, detailed schedule and instructions by 16th Nov 2021.
8. **Date & Time of the Webinar:** 18th November 2021 (09:30 AM to 1:00 PM & 2:00 PM to 4:30 PM).
9. **Attendance:** The registered applicants have to attend this webinar. At least 90% attendance is required for successful completion.
10. **e-Certificates** will be issued to those who successfully completes the program.
11. Applicants may contact pmc@cftri.res.in for any queries related to this webinar. All the mails send to this mail-id should have the subject starts with **"SDP:"**. No other modes of communication will be entertained.

IMPORTANT LINKS

[Link for Payment Instructions](#)

[Link for Payment](#)

[Link for Registration](#)